

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-26.09.2021

स्कैब से लदे ट्रक चोरी की घटना का स्वाट टीम (देहात) व थाना छतारी पुलिस द्वारा खुलासा, घटना में संलिप्त 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया ट्रक मय स्कैब, 50 हजार रुपये नकद, 01 मोटरसाइकिल,

03 मोबाइल फोन बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री बजरंग बली चौरसिया के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी डिबाई सुश्री वन्दना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष छतारी श्री राहुल चौधरी के नेतृत्व में दिनांक 25.09.2021 की रात्रि में उ0नि0 श्री कमलेश कुमार उपाध्याय, उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह मय पुलिस टीम के क्षेत्र में देख-रेख व तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे तभी अपर पुलिस अधीक्षक देहात की स्वाट टीम द्वारा सूचना दी गयी कि थाना छतारी पर पंजीकृत मुअसं-451/21 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित चोरी के ट्रक को लेकर 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्त मोटर साइकिल पर सवार होकर अलीगढ़ की तरफ से आगे पीछे आने वाले है। इस सूचना पर थाना छतारी पुलिस व स्वाट टीम (देहात) संयुक्त रूप से गौधा बम्बा पुल के पास बैरियर लगाकर सतर्कता से चैकिंग करने लगी। कुछ देर बाद अलीगढ़ की तरफ से 01 ट्रक न0-UP-80BT-3397 आता दिखायी दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो ट्रक में सवार दोनों अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर दोनों अभियुक्त आकिब व तरुण को गिरफ्तार किया गया जिनके द्वारा बताया गया कि हमारा 01 साथी अनीश पीछे से मोटर साइकिल पर आने वाला है जिसको भी पुलिस टीम द्वारा कुछ समय बाद घेराबन्दी कर मोटर साइकिल सहित समय करीब रात्रि 20.55 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की तथा तीनों अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया ट्रक न0-यूपी-80बीटी-3397 मय स्कैब करीब 30 क्विन्टल, 50,000/- रुपये नकद आदि बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. आकिब पुत्र हमीरुद्दीन निवासी ग्राम अरनी थाना बरला जनपद अलीगढ़
2. तरुण पुत्र जवाहर सिंह निवासी नगला मसानी थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़
3. अनीश पुत्र साबिर निवासी फूलगढी नई टंकी थाना कोतवाली देहात जनपद हापुड

बरामदगी-

- 1- ट्रक नं0- UP-80BT-3397 मय स्कैब (करीब 30 क्विन्टल)
- 2- 50,000 रुपये नकद
- 3- 01 हीरो स्पलैण्डर मोटरसाइकिल नं0- UP-81CF-8754
- 4- 03 मोबाइल फोन

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14-09-2021 की रात्रि में बाबूरखान ड्राइवर जनपद अलीगढ़ के सिटीकांटा क्षेत्र से एक स्कैब भरा हुआ ट्रक लेकर चला था, अलीगढ़ में ही खेड़ासुर चौराहा के पास बुलंदशहर जाने के बहाने सवारी के रूप में ट्रक में पवन पुत्र जवाहर सिंह निवासी नगला मसानी थाना दिल्ली गेट अलीगढ़ और अकील पुत्र शमसुद्दीन निवासी मौ0 बमनपुरी कस्बा व थाना अतरौली जनपद अलीगढ़ (फरार) बैठ गये तथा रास्ते में राजस्थानी चौहान ढाबा पर सभी ने खाना खाया शराब पी, योजनानुसार मोटरसाइकिल से ट्रक के पीछे पीछे आ रहे तरुण एवं आकिब भी वहीं ढाबे पर रुके व ड्राइवर से मेलजोल बढ़ा कर नशीली सिगरेट पिला दी जिससे कुछ देर बाद ड्राइवर को नशा हो गया इसके पश्चात तरुण मोटरसाइकिल से ट्रक के पीछे पीछे लगा रहा व अन्य तीनों ट्रक पर सवार हो गए और थाना छतारी क्षेत्र के अंतर्गत डिबाई रोड पर ड्राइवर बाबू खान को ट्रक के बाहर फेंककर स्कैब से भरा ट्रक सपनावत हापुड में ले जाकर खड़ा किया था। अभियुक्त अनीश के माध्यम से अभियुक्तगण द्वारा स्कैब में से कुछ का 50,000/- रुपये में सौदा कर दिया था जो 50,000/- रुपये तरुण के पास से बरामद हुए है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छतारी पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली थाना छतारी पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष श्री राहुल चौधरी थाना छतारी
2. उ0नि0 श्री कमलेश कुमार उपाध्याय , उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार, का0 हरिओम कुमार, रि0का0 ललित कुमार

स्वाट टीम (अपर पुलिस अधीक्षक देहात):-

3. का0 नितिन कुमार शर्मा, का0 आकाश नेहरा, का0 आकाश कुमार, का0 मनीष कुमार